

# Rev

## Chapter 12

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

- 1    Καὶ    σημεῖον    μέγα    ὠφθη    ἐν    τῷ    οὐρανῷ:    γυνή    περιβεβλημένη    τὸν  
और    चिह्न    बड़ा    दिखाई-दिया    -में    -के    स्वर्ग    स्त्री    पहनी-हुई    -को  
[G2532](#)   [G4592](#)   [G3173](#)   [G3708](#)   [G1722](#)   [G3588](#)   [G3772](#)   [G1135](#)   [G4016](#)   [G3588](#)
- ἥλιον,    καὶ    ἡ    σελήνη    ὑποκάτω    τῶν    ποδῶν    αὐτῆς,    καὶ    ἐπὶ    τῆς    κεφαλῆς  
सूर्य    और    -वह    चंद्रमा    नीचे    -के    पैरों    उसके    और    -पर    -के    सिर  
[G2246](#)   [G2532](#)   [G3588](#)   [G4582](#)   [G5270](#)   [G3588](#)   [G4228](#)   [G0846](#)   [G2532](#)   [G1909](#)   [G3588](#)   [G2776](#)
- αὐτῆς    στέφανος    ἀστέρων    δώδεκα;  
उसके    मुकुट    तारों-का    बारह।  
[G0846](#)   [G4735](#)   [G0792](#)   [G1427](#)

इसके पश्चात् आकाश में एक बड़ा सा संकेत प्रकट हुआ: एक महिला दिखाई दी जिसने सूरज को धारण किया हुआ था और चन्द्रमा उसके पैरों तले था। उसके माथे पर मुकुट था जिसमें बारह तारे जड़े थे।

- 2    καὶ    ἐν    γαστρὶ    ἔχουσα,    καὶ    κράζει    ὠδίνουσα,    καὶ    βασιανίζομένη  
और    -में    गर्भ    रखती-थी    और    वह-चिल्लाती-है    प्रसव-पीड़ा-में    और    तड़पती-हुई  
[G2532](#)   [G1722](#)   [G1064](#)   [G2192](#)   [G2532](#)   [G2896](#)   [G5605](#)   [G2532](#)   [G0928](#)

τεκεῖν.

जन्म-देने-को।

[G5088](#)

वह गर्भवती थी। और क्योंकि प्रसव होने ही वाला था इसलिए प्रजनन की पीड़ा से वह कराह रही थी।

- 3    καὶ    ὠφθη    ἄλλο    σημεῖον    ἐν    τῷ    οὐρανῷ,    καὶ    ἰδοὺ,    δράκων    πυρρός,    ἰ  
और    दिखाई-दिया    दूसरा    चिह्न    -में    -के    स्वर्ग    और    देखो    अजगर    लाल  
[G2532](#)   [G3708](#)   [G0243](#)   [G4592](#)   [G1722](#)   [G3588](#)   [G3772](#)   [G2532](#)   [G3708](#)   [G1404](#)   [G4450](#)
- μέγας    ἔχων    κεφαλὰς    ἑπτὰ,    καὶ    κέρατα    δέκα,    καὶ    ἐπὶ    τὰς    κεφαλὰς    αὐτοῦ,  
बड़ा    रखता-था    सिर    सात    और    सींग    दस    और    -पर    -उन    सिरों    उसके  
[G3173](#)   [G2192](#)   [G2776](#)   [G2033](#)   [G2532](#)   [G2768](#)   [G1176](#)   [G2532](#)   [G1909](#)   [G3588](#)   [G2776](#)   [G0846](#)
- ἑπτὰ    διαδήματα;  
सात    राजमुकुट।  
[G2033](#)   [G1238](#)

स्वर्ग में एक और संकेत प्रकट हुआ। मेरे सामने ही एक लाल रंग का विशालकाय अजगर खड़ा था। उसके सातों सिरों पर सात मुकुट थे।

- 4    καὶ    ἡ    οὐρὰ    αὐτοῦ    σύρει    τὸ    τρίτον    τῶν    ἀστέρων    τοῦ    οὐρανοῦ,  
और    -वह    पूंछ    उसकी    खींचती-है    -को    एक-तिहाई    -के    तारों    -के    स्वर्ग  
[G2532](#)   [G3588](#)   [G3769](#)   [G0846](#)   [G4951](#)   [G3588](#)   [G5154](#)   [G3588](#)   [G0792](#)   [G3588](#)   [G3772](#)

καὶ    ἔβαλεν    αὐτοὺς    εἰς    τὴν    γῆν.    καὶ    ὁ    δράκων    ἔστηκεν    ἐνώπιον    τῆς  
और    फेंका    उन्हें    -पर    -को    पृथ्वी।    और    -वह    अजगर    खड़ा-है    सामने    -की  
[G2532](#)   [G0906](#)   [G0846](#)   [G1519](#)   [G3588](#)   [G1093](#)   [G2532](#)   [G3588](#)   [G1404](#)   [G2476](#)   [G1799](#)   [G3588](#)

γυναικός,    τῆς    μελλούσης    τεκεῖν,    ἵνα    ὅταν    τέκνη,    τὸ    τέκνον    αὐτῆς  
स्त्री    -जो    वाली-थी    जन्म-देने    ताकि    जब    वह-जन्म-दे    -को    बच्चा    उसका  
[G1135](#)   [G3588](#)   [G3195](#)   [G5088](#)   [G2443](#)   [G3752](#)   [G5088](#)   [G3588](#)   [G5043](#)   [G0846](#)

καταφάγη.

वह-खा-जाए।

[G2719](#)

उसकी पूँछ ने आकाश के तारों के एक तिहाई भाग को सपाटा मारकर धरती पर नीचे फेंक दिया। वह स्त्री जो बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, वह अजगर उसके सामने खड़ा हो गया ताकि वह जैसे ही उस बच्चे को जन्म दे, वह उसके बच्चे को निगल जाए।

5 καὶ ἔτεκεν υἱόν ἄρσεν, ὃς μέλλει ποιμαίνει πάντα τὰ ἔθνη ἐν  
 और उसने-जन्म-दिया पुत्र नर जो वाला-है चराने सब -उन जातियों-को -से  
[G2532](#) [G5088](#) [G5207](#) [G0730](#) [G3739](#) [G3195](#) [G4165](#) [G3956](#) [G3588](#) [G1484](#) [G1722](#)

ράβδῳ σιδηρᾷ; καὶ ἠρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν Θεόν, καὶ  
 लाठी लोहे-की और छीना-गया -वह बच्चा उसका -के-पास -के परमेश्वर और  
[G4464](#) [G4603](#) [G2532](#) [G0726](#) [G3588](#) [G5043](#) [G0846](#) [G4314](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2532](#)

πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ.  
 -के-पास -के सिंहासन उसके।  
[G4314](#) [G3588](#) [G2362](#) [G0846](#)

फिर उस स्त्री ने एक बच्चे को जन्म दिया जो एक लड़का था। उसे सभी जातियों पर लौह दण्ड के साथ शासन करना था। किन्तु उस बच्चे को उठाकर परमेश्वर और उसके सिंहासन के सामने ले जाया गया।

6 καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον  
 और -वह स्त्री भागी -में -के जंगल जहां रखती-है वहां स्थान  
[G2532](#) [G3588](#) [G1135](#) [G5343](#) [G1519](#) [G3588](#) [G2048](#) [G3699](#) [G2192](#) [G1563](#) [G5117](#)

ἠτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας  
 तैयार-किया-हुआ -से -के परमेश्वर ताकि वहां वे-पोषें उसे दिनों हज़ार  
[G2090](#) [G0575](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2443](#) [G1563](#) [G5142](#) [G0846](#) [G2250](#) [G5507](#)

διακοσίας ἑξήκοντα.  
 दो-सौ साठ।  
[G1250](#) [G1835](#)

और वह स्त्री निर्जन वन में भाग गई। एक ऐसा स्थान जो परमेश्वर ने उसी के लिए तैयार किया था ताकि वहाँ उसे एक हज़ार दो सौ साठ दिन तक जीवित रखा जा सके।

7 Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ: ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι  
 और हुआ युद्ध -में -के स्वर्ग -वह मीखाएल और -उसके स्वर्गदूत  
[G2532](#) [G1096](#) [G4171](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3772](#) [G3588](#) [G3413](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0032](#)

αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος, καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησεν,  
 उसके -के-लिए लड़ना -के-साथ -के अजगर और -वह अजगर लड़ा  
[G0846](#) [G3588](#) [G4170](#) [G3326](#) [G3588](#) [G1404](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1404](#) [G4170](#)

καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ;  
 और -उसके स्वर्गदूत उसके।  
[G2532](#) [G3588](#) [G0032](#) [G0846](#)

फिर स्वर्ग में एक युद्ध भड़क उठा। मीकाईल और उसके दूतों का उस विशालकाय अजगर से संग्राम हुआ। उस विशालकाय अजगर ने भी उसके दूतों के साथ लड़ाई लड़ी।

8 καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὐρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ.  
 और नहीं जीता न स्थान पाया-गया उनका अब -में -के स्वर्ग।  
[G2532](#) [G3756](#) [G2480](#) [G3761](#) [G5117](#) [G2147](#) [G0846](#) [G2089](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3772](#)

किन्तु वह उन पर भारी नहीं पड़ सका, सो स्वर्ग में उनका स्थान उनके हाथ से निकल गया।

- 9 καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ  
 और फेंका-गया -वह अजगर -वह बड़ा -वह सांप -वह पुराना -जो  
[G2532](#) [G0906](#) [G3588](#) [G1404](#) [G3588](#) [G3173](#) [G3588](#) [G3789](#) [G3588](#) [G0744](#) [G3588](#)
- καλούμενος Διάβολος, καὶ Ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὄλην;  
 कहलाता-है दियाबोलोस और -वह सातानास -जो भटकानेवाला -को संसार सारे  
[G2564](#) [G1228](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4567](#) [G3588](#) [G4105](#) [G3588](#) [G3625](#) [G3650](#)
- ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ' αὐτοῦ ἐβλήθησαν.  
 फेंका-गया -पर -को पृथ्वी और -उसके स्वर्गदूत उसके -के-साथ उसके फेंके-गए।  
[G0906](#) [G1519](#) [G3588](#) [G1093](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0032](#) [G0846](#) [G3326](#) [G0846](#) [G0906](#)

और उस विशालकाय अजगर को नीचे धकेल दिया गया। यह वही पुराना महानाग है जिसे दानव अथवा शैतान कहा गया है। यह समूचे संसार को छलता रहता है। हाँ, इसे धरती पर धकेल दिया गया था।

- 10 καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ, λέγουσαν, Ἄρτι ἐγένετο ἡ  
 और मैंने-सुनी आवाज बड़ी -में -के स्वर्ग कहती-हुई अब हुआ -वह  
[G2532](#) [G0191](#) [G5456](#) [G3173](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3772](#) [G3004](#) [G0737](#) [G1096](#) [G3588](#)
- σωτηρία, καὶ ἡ δύναμις, καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, καὶ ἡ  
 उद्धार और -वह शक्ति और -वह राज्य -का परमेश्वर हमारे और -वह  
[G4991](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1411](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0932](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1473](#) [G2532](#) [G3588](#)
- ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν,  
 अधिकार -के ख्रीस्तोस उसके क्योंकि फेंका-गया -वह दोष-लगानेवाला -के भाईयों हमारे  
[G1849](#) [G3588](#) [G5547](#) [G0846](#) [G3754](#) [G0906](#) [G3588](#) [G2725](#) [G3588](#) [G0080](#) [G1473](#)
- ὁ κατηγορῶν αὐτοῦς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἡμέρας καὶ νυκτός.  
 -जो दोष-लगानेवाला-है उन-पर सामने -के परमेश्वर हमारे दिन और रात।  
[G3588](#) [G2723](#) [G0846](#) [G1799](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1473](#) [G2250](#) [G2532](#) [G3571](#)

फिर मैंने ऊँचे स्वर में एक आकाशवाणी को कहते सुना: “यह हमारे परमेश्वर के विजय की घड़ी है। उसने अपनी शक्ति और संप्रभुता का बोध करा दिया है। उसके मसीह ने अपनी शक्ति को प्रकट कर दिया है क्योंकि हमारे बन्धुओं पर परमेश्वर के सामने दिन-रात लांछन लगाने वाले को नीचे धकेल दिया गया है।

- 11 καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ Ἄρνιου, καὶ διὰ τὸν  
 और उन्होंने जीता उसे -के-द्वारा -उस खून -के मेम्ने और -के-द्वारा -उस  
[G2532](#) [G0846](#) [G3528](#) [G0846](#) [G1223](#) [G3588](#) [G0129](#) [G3588](#) [G0721](#) [G2532](#) [G1223](#) [G3588](#)
- λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν; καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι  
 वचन -की गवाही उनकी उनकी और नहीं प्रेम-किया -को प्राण अपना -तक  
[G3056](#) [G3588](#) [G3141](#) [G0846](#) [G2532](#) [G3756](#) [G0025](#) [G3588](#) [G5590](#) [G0846](#) [G0891](#)
- θανάτου.  
 मृत्यु।  
[G2288](#)

उन्होंने मेमने के बलिदान के रक्त और उनके द्वारा दी गई साक्षी से उसे हरा दिया है। उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग करने तक अपने जीवन की परवाह नहीं की।

- 12 διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε <οἱ> οὐρανοὶ, καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες!  
 -के-कारण इस आनंदित-हो हे स्वर्गों और -जो -में उनमें निवास-करते-हो!  
[G1223](#) [G3778](#) [G2165](#) [G3588](#) [G3772](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1722](#) [G0846](#) [G4637](#)
- οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς  
 हाय -को पृथ्वी और -को समुद्र क्योंकि उतरा -वह दियाबोलोस -के-पास तुम  
[G3759](#) [G3588](#) [G1093](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2281](#) [G3754](#) [G2597](#) [G3588](#) [G1228](#) [G4314](#) [G4771](#)
- ἔχων, θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει.  
 रखता-हुआ क्रोध बड़ा जानता-हुआ कि थोड़ा समय रखता-है।  
[G2192](#) [G2372](#) [G3173](#) [G1492](#) [G3754](#) [G3641](#) [G2540](#) [G2192](#)

सो हे स्वर्गों और स्वर्गों के निवासियों, आनन्द मनाओ। किन्तु हाय, धरती और सागर, तुम्हारे लिए कितना बुरा होगा क्योंकि शैतान अब तुम पर उतर आया है। वह क्रोध से आग-बबूला हो रहा है। क्योंकि वह जानता है कि अब उसका बहुत थोड़ा समय शेष है।”

- 13 καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων, ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν τὴν  
 और जब देखा -उसने अजगर कि फेंका-गया -पर -को पृथ्वी उसने-सताया -को  
[G2532](#) [G3753](#) [G3708](#) [G3588](#) [G1404](#) [G3754](#) [G0906](#) [G1519](#) [G3588](#) [G1093](#) [G1377](#) [G3588](#)

γυναῖκα, ἦτις ἔτεκεν τὸν ἄρσενα.  
 स्त्री जिसने जन्म-दिया-था -को नर-बच्चे।  
[G1135](#) [G3748](#) [G5088](#) [G3588](#) [G0730](#)

जब उस विशालकाय अजगर ने देखा कि उसे धरती पर नीचे धकेल दिया गया है तो उसने उस स्त्री का पीछा करना शुरू कर दिया जिसने पुत्र जना था।

- 14 καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου,  
 और दी-गई -को स्त्री -वे दो पंख -के उकाब -के बड़े  
[G2532](#) [G1325](#) [G3588](#) [G1135](#) [G3588](#) [G1417](#) [G4420](#) [G3588](#) [G0105](#) [G3588](#) [G3173](#)

ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον, εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπου τρέφεται  
 ताकि वह-उड़े -में -के जंगल -में -उस स्थान उसके जहां वह-पोषी-जाती-है  
[G2443](#) [G4072](#) [G1519](#) [G3588](#) [G2048](#) [G1519](#) [G3588](#) [G5117](#) [G0846](#) [G3699](#) [G5142](#)

ἐκεῖ καιρὸν, καὶ καιροῦς, καὶ ἡμῖς καιροῦ, ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως.  
 वहां समय और समयों और आधा समय -से चेहरे -के सांप।  
[G1563](#) [G2540](#) [G2532](#) [G2540](#) [G2532](#) [G2255](#) [G2540](#) [G0575](#) [G4383](#) [G3588](#) [G3789](#)

किन्तु उस स्त्री को एक बड़े उकाब के दो पंख दिए गए ताकि वह उस वन प्रदेश को उड़ जाए, जो उसके लिए तैयार किया गया था। साढ़े तीन साल तक वहीं उस विशालकाय अजगर से दूर उसका भरण-पोषण किया जाना था।

- 15 καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις, ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, ὀπίσω τῆς γυναικός,  
 और फेंका -उसने सांप -से -अपने मुंह उसके पीछे -की स्त्री  
[G2532](#) [G0906](#) [G3588](#) [G3789](#) [G1537](#) [G3588](#) [G4750](#) [G0846](#) [G3694](#) [G3588](#) [G1135](#)

ὑδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ.  
 पानी जैसे नदी ताकि उसे नदी-में-बहाई-जाए वह-करे।  
[G5204](#) [G5613](#) [G4215](#) [G2443](#) [G0846](#) [G4216](#) [G4160](#)

तब उस महानाग ने उस स्त्री के पीछे अपने मुख से नदी के समान जल धारा प्रवाहित की ताकि वह उसमें बह कर डूब जाए।

- 16 καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἥνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα  
 और सहायता-की -उसने पृथ्वी -उस स्त्री-की और खोला -उसने पृथ्वी -को मुंह  
[G2532](#) [G0997](#) [G3588](#) [G1093](#) [G3588](#) [G1135](#) [G2532](#) [G0455](#) [G3588](#) [G1093](#) [G3588](#) [G4750](#)

αὐτῆς, καὶ κατέπιεν τὸν ποταμόν, ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ  
 उसका और निगल-गई -को नदी जिसे फेंका -उसने अजगर -से -अपने  
[G0846](#) [G2532](#) [G2666](#) [G3588](#) [G4215](#) [G3739](#) [G0906](#) [G3588](#) [G1404](#) [G1537](#) [G3588](#)

στόματος αὐτοῦ.  
 मुंह उसके।  
[G4750](#) [G0846](#)

किन्तु धरती ने अपना मुख खोलकर उस स्त्री की सहायता की और उस विशालकाय अजगर ने अपने मुख से जो नदी निकाली थी, उसे निगल लिया।

17	καὶ और <a href="#">G2532</a>	ὠργίσθη क्रोधित-हुआ <a href="#">G3710</a>	ὁ -वह <a href="#">G3588</a>	δράκων अजगर <a href="#">G1404</a>	ἐπὶ -पर <a href="#">G1909</a>	τῇ -उस <a href="#">G3588</a>	γυναικί, स्त्री <a href="#">G1135</a>	καὶ और <a href="#">G2532</a>	ἀπέληθεν चला-गया <a href="#">G0565</a>	ποιῆσαι करने <a href="#">G4160</a>	πόλεμον युद्ध <a href="#">G4171</a>
	μετὰ -के-साथ <a href="#">G3326</a>	τῶν -के <a href="#">G3588</a>	λοιπῶν शेष <a href="#">G3062</a>	τοῦ -के <a href="#">G3588</a>	σπέρματος वंश <a href="#">G4690</a>	αὐτῆς, उसके <a href="#">G0846</a>	τῶν -जो <a href="#">G3588</a>	τηρούντων पालन-करनेवाले <a href="#">G5083</a>	τὰς -को <a href="#">G3588</a>	ἐντολὰς आज्ञाओं <a href="#">G1785</a>	τοῦ -की <a href="#">G3588</a>
	Θεοῦ, परमेश्वर <a href="#">G2316</a>	καὶ और <a href="#">G2532</a>	ἐχόντων रखनेवाले <a href="#">G2192</a>	τὴν -को <a href="#">G3588</a>	μαρτυρίαν गवाही <a href="#">G3141</a>	Ἰησοῦ. यीशु-की। <a href="#">G2424</a>	καὶ और <a href="#">G2532</a>	ἐστάθη वह-खड़ा-हुआ <a href="#">G2476</a>	ἐπὶ -पर <a href="#">G1909</a>	τὴν -की <a href="#">G3588</a>	ἄμμον रेत <a href="#">G0285</a>
	τῆς -के <a href="#">G3588</a>	θαλάσσης. समुद्र। <a href="#">G2281</a>									

इसके बाद तो वह विशालकाय अजगर उस स्त्री पर बहुत क्रोधित हो उठा और उसके उन वंशजों के साथ जो परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं और यीशु की साक्षी को धारण करते हैं, युद्ध करने को निकल पड़ा।